



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490]  
No. 490]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2008/भाद्र 17, 1930  
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2008/BHADRA 17, 1930

कृषि मंत्रालय

( कृषि और सहकारिता विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 644(अ).—कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंशिक श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2007 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 267, तारीख 8 दिसम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालिस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 8 जनवरी, 2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

## नियम

### 1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आंवला श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2008 है ।
- (2) ये सूखा आंवला और आंवला चूर्ण को लागू होंगे ।
- (3) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

### 2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;
- (ख) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार आंवला चूर्ण के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाए ;
- (ग) “प्राधिकार प्रमाणपत्र” से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को श्रेणी अभिधान और चिन्ह से सूखा आंवला और आंवला चूर्ण के श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने का प्राधिकार देता है ;
- (घ) “साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है ;
- (ङ) “अनुसूची ” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. **श्रेणी अभिधान चिन्ह :-** श्रेणी अभिधान चिन्ह में प्राधिकार प्रमाणपत्र संख्यांक, “एगमार्क” शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में यथा उपवर्णित के सदृश श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना “एगमार्क प्रतीक” होगा ।

4. **श्रेणी अभिधान --** शुष्क आंवला और आंवला चूर्ण की गुणवत्ता उपदर्शित करने वाला श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के स्तंभ 1 में वर्णित किए गए के अनुसार होगा ।

5. **गुणवत्ता -** यूफोरबीआसीए परिवार के एमबेलिका आफिसीनलिस से अभिप्राप्त सूखा आंवला और आंवला चूर्ण की गुणवत्ता वह होगी जो अनुसूची 2 के स्तंभ 2 से स्तंभ 7 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने और अनुसूची 3 में उपवर्णित है ।

### 6. पैकिंग की पद्धति.--

- (1) शुष्क आंवला और आंवला चूर्ण को जूट या कपड़े के बने खाद्य श्रेणी सामग्री के उपयुक्त अंतर वाले ठोस, स्वच्छ एवं शुष्क आधानों में, गत्ते के कार्टनों में, कपड़े के थैलों, लैमिनेटिड

- पॉलीथिलिन या पॉलीप्रोपिलीन या उच्च सघनता वाले पॉलीथिलीन के थैलों, पाउचों या ऐसे किसी अन्य पैकेजिंग सामग्री में ही पैक किया जाएगा जो कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हो ;
- (2) आधान किसी कीट प्रस्तता या फफूंद संदूषण से मुक्त होगा और किसी अवांछनीय या असहनीय गंध से भी मुक्त होगा ;
- (3) शुष्क आंवला और इसके चूर्ण को ऐसी रीति में पैक किया जाएगा ताकि उत्पाद की उचित रूप से संरक्षा हो सके । आधान को कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में सुरक्षित रूप से बंद और सीलबंद किया जाएगा ;
- (4) पैकेज के अंदर प्रयुक्त सामग्री, स्वच्छ और ऐसी गुणवत्ता की होनी चाहिए जिससे कि उत्पाद को कोई किसी बाहरी या आंतरिक क्षति होने से बचाया जा सके ;
- (5) सामग्री विशिष्टरूप से कागज की या व्यापार विनिर्देशों वाली स्टेम्पों का उपयोग अनुज्ञात किया जाता है बशर्ते कि मुद्रण और लेबल लगाने का कार्य अविषैली स्याही या गोंद से किया गया हो ;
- (6) प्रत्येक पैकेज में केवल एक ही श्रेणी अभिधान की शुष्क आंवला या चूर्ण होगा । उसी लाट/बैच की श्रेणीकृत सामग्री और श्रेणी अभिधान वाले शुष्क आंवला या चूर्ण की उपयुक्त संख्या या छोटे पैकेटों को जूट की थैलियों, लकड़ी के बक्सों, गत्तों के कार्टनों आदि जैसे मास्टर आधानों में मान्य आधारों पर ब्यारे के साथ पैक किए जा सकेंगे ;
- (7) शुष्क आंवला और चूर्ण को, समय-समय पर जारी कृषि विपणन सलाहकार अनुदेशों के अनुसार पैकेटों के आकारों में पैक किया जाएगा ।

#### 7. चिन्हांकन की पद्धति और लेबल लगाना :-

- (1) श्रेणी अभिधान चिन्ह प्रत्येक आधान में सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा या स्पष्ट और सुपाठ्य रूप में मुद्रित होगा ।
- (2) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त, निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य रूप में चिन्हांकित होंगी, अर्थात् :-
- (क) वस्तु का नाम
  - (ख) किस्म (वैकल्पिक) ;
  - (ग) श्रेणी अभिधान ;
  - (घ) लाट या बैच संख्यांक ;
  - (ङ) पैकर का नाम और पता ;
  - (च) शुद्ध भार ;
  - (छ) भंडारण स्थिति, यदि कोई हो ;
  - (ज) उद्गम का देश ;

- (झ) पैकिंग की तारीख ; \*
- (ञ) .....तारीख के पूर्व उपभोग सर्वोत्तम ;
- (ट) अधिकतम खुदरा कीमत (सभी करों सहित) ; और
- (ठ) कोई अन्य विशिष्टियां जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

- (3) पैकेजों पर चिन्हांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी गुणवत्ता वाली होगी जो उत्पाद को संदूषित न करे ।
  - (4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना निजी व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड का उपयोग कर सकेगा परंतु वह इन नियमों के अनुसार आधान पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित न करता हो ।
8. शुष्क आवला और चूर्ण को निर्यात के लिए क्रेता की अपेक्षाओं के अनुसार श्रेणीकृत और चिन्हांकित किया जा सकेगा परंतु वह सुसंगत अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं को गैरविनिर्दिष्ट श्रेणी के अधीन पूरा करता हो ।

#### 9. प्राधिकार प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए विशेष शर्तें :-

- (1) प्रत्येक प्राधिकृत पैकेट साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त समय समय पर किसी विपणन सलाहकार द्वारा विहित सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।
- (2) प्राधिकृत पैकर शुष्क आवला और चूर्ण की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम 1988 के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या उस प्रयोजन के लिए अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या निजी वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा ;
- (3) प्रसंस्करण, श्रेणीकरण और पैकिंग के लिए परिसरों को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं में रखा जाएगा । इन संक्रियाओं में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे ;
- (4) परिसरों में पक्के फर्श, प्रकाश और वायु के लिए बेहतर संवातन वाली पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी तथा यह कृन्तक और कीटों के आकीर्णन से वे मुक्त होंगे ;

\* पैकिंग की तारीख नमूने के विश्लेषण के पूरा होने की तारीख होगी ।

अनुसूची - 1  
(नियम 3 देखिए)

### एगमार्क प्रतीक का डिजाइन



वस्तु का नाम.....

श्रेणी.....

अनुसूची 2  
(नियम 4 और 5 देखिए)  
शुष्क आवला की श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता

1. शुष्क आवला को यूफोरबियासीए परिवार के एमबेलिका से अभिप्राप्त किया जाएगा ।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :-

- (i) शुष्क आवला वस्तु के रंग और विशेषताओं वाला होगा
- (ii) यह
  - (क) अविकल और ठोस होगा ;
  - (ख) किसी दृश्य बाह्य पदार्थ से मुक्त होगा ;
  - (ग) कीट संदूषण, जीवित कीटाणु, मृत कीटाणुओं, कीट गंध, फफूंदी/दमड़ी, लारवा से मुक्त होगा ;
  - (घ) खमीर किण्वन विकृतगंधी स्वाद और पुरानी महक से मुक्त होगा ;
  - (ङ) बाह्य पदार्थ और मिलाए गए रंजक पदार्थ और अन्य हानिकारक पदार्थों आदि से मुक्त होगा ;
  - (च) फफूंदी या बैक्टीरिया संदूषण से मुक्त होगी ;

(iii) शुष्क आवला का स्वाद और गंध वस्तु के लक्षणों की होगी ।

(iv) यह धात्विक संदूषण (नियम 57), फसल संदूषकों (नियम 57-क) प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों (नियम 57-ख), कीटनाशियों और नाशकजीवमारों (नियम 65) और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन यथाविहित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदण्डों का अनुपालन करेगी ।

(v) यह शुष्क आवला भारी धातु अवशिष्ट स्तरों कीटनाशियों/नाशकजीवमार अवशिष्ट और निर्यात के लिए कोडेक्स एलिमेनटेरिस आयोग द्वारा अधिकचित अन्य सुरक्षा मापदंडों का अनुपालन करेगा ।

### 3. श्रेणी अभिधान के लिए मानदंड :

श्रेणी अभिधान	विशेष अभिलक्षण					
	आद्रता, द्रव्यमान का प्रतिशत	खुले बीज, द्रव्यमान का प्रतिशत	शुष्कता के आधार पर कार्बनिक बाह्य पदार्थ, द्रव्यमान का प्रतिशत	शुष्कता के आधार पर अकार्बनिक बाह्य पदार्थ, द्रव्यमान का प्रतिशत	शुष्कता के आधार पर क्षतिग्रस्त और कीट छिद्रित फलियां, द्रव्यमान का प्रतिशत	शुष्कता के आधार पर विटामिन सी मात्रा मि.ग्रा./100 ग्राम
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	10.0	2.0	0.5	0.5	1.0	150
मानक	11.0	4.0	1.0	0.5	2.0	100
साधारण	12.0	6.0	2.0	1.0	3.0	80

### 4. अन्य अपेक्षाएं :-

शुष्क आवला की दशा ऐसी होगी जिससे वे निम्नलिखित के लिए समर्थ हो सकें:-

- (1) परिवहन और हथालन को सहन करने के लिए और
- (2) गंतव्य स्थान में समाधानप्रद दशा में पहुंचने के लिए ।

### स्पष्टीकरण :

- (1) कार्बनिक बाह्य पदार्थ से पादपों का सब्जी पदार्थ अभिप्रेत है ।
- (2) अकार्बनिक बाह्य पदार्थ से रेत, रत्थर, गंदगी, रोड़े मिट्टी, मृत्तिका, धूल आदि के पिंड अभिप्रेत है ।
- (3) क्षतिग्रस्त और कीट छिद्रित फलों से ऐसे फल अभिप्रेत है जिनमें दृश्य फंफूदी जंतुबाधा और घुन द्वारा क्षतिग्रस्त है तथा छिद्रित की गई हैं ।

## अनुसूची -3

(नियम 4 और नियम 5 देखिए)

## आंवला चूर्ण की श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. आंवला चूर्ण यूफेबीआसीए परिवार का एमबीलिका आफिसिनलिस की किस्मों की स्वच्छ अच्छी तरह पके हुए फलों को पीसकर अभिप्राप्त किया जाएगा।

## 2. न्यूनतम अभेदाएँ :-

(i) आंवला चूर्ण :-

- (क) किसी दृश्य बाह्य पदार्थ से मुक्त होगा ;  
 (ख) कीट संदूषक, प्रीवित कीटाणु, मृत कीटाणुओं, कीट गंध, फफूंदी, दमकी, लाखा, कृतंक सेम बलभूत्र से मुक्त होगा ;  
 (ग) खमीर और पुरानी महक से मुक्त होगा ;  
 (घ) धूल, बाह्य पदार्थ और ऐसे ही मिलाए गए रंजक पदार्थ और अन्य प्रकार के अपद्रव्यों से मुक्त होगा ;  
 (ङ) फफूंदी या बैक्टीरिया संदूषण से मुक्त होगा ;

(ii) आंवला चूर्ण का स्वाद और गंध उत्पाद के लक्षणों की होगी।

(iii) यह धात्विक संदूषण (नियम 57), फसल संदूषकों (नियम 57-क) प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों (नियम 57-ख), कीटनाशियों और नाशकजीवमारों (नियम 65) और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन यथाविहित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदण्डों का अनुपालन करेगी।

(iv) भारी धातुओं, कीटनाशियों, अवशिष्ट स्तरों और निर्यात के लिए फोडेक्स एलिमेनट्स आयोग द्वारा अधिकतम अन्य सुरक्षा मापदंडों का अनुपालन करेगा।

## 3. श्रेणी अभिधान के लिए मानदंड :

श्रेणी अभिधान	विशेष अभिलक्षण					
	आद्रता, द्रव्यमान का प्रतिशत	कुल भस्म, द्रव्यमान का प्रतिशत	अम्ल अविलेय भस्म, द्रव्यमान का प्रतिशत	अपरिष्कृत फाइबर, द्रव्यमान का प्रतिशत	500 माइक्रोन छलनी पर प्रतिधारण, द्रव्यमान का प्रतिशत	शुष्कता के आधार पर विटामिन सी मात्रा कि.ग्र. 100 ग्राम

	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(न्यूनतम)
1	2	3	4	5	6	7
विशेष	8.0	5.0	0.5	10.0	1.0	200
मानक	9.0	6.0	1.0	14.0	2.0	150
साधारण	10.0	7.0	1.5	18.0	3.0	100

#### 4. अन्य अपेक्षाएं :-

आंवला चूर्ण की दशा ऐसी होगी जिससे कि वह निम्नलिखित के लिए समर्थ हो सके:-

- (1) परिवहन और हथालन को सहन करने के लिए और
- (2) गंतव्य स्थान पर समाधानप्रद दशा में पहुंचने के लिए ।

स्पष्टीकरण :

- (i) कार्बनिक बाह्य पदार्थ से पादपों का सब्जी पदार्थ अभिप्रेत है ।
- (ii) अकार्बनिक बाह्य पदार्थ से रेत, पत्थर, गंदगी, रोड़े मिट्टी, भृत्तिका, धूल आदि के पिंड अभिप्रेत है ।

[फा. सं. 18011/24/2007-एम-III]

जिजि थॉमसन, संयुक्त सचिव (विपणन)

### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2008

**G.S.R. 644(E).**—Whereas the draft of Amla Grading and Marking Rules, 2007, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) was published vide notification Number-G.S.R.267 dated 8<sup>th</sup> December, 2007 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public.

And whereas copies of the said notification were made available to the public on 8<sup>th</sup> January, 2008 and whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-



## RULES

1. **Short title, application and commencement.** - (1) These rules may be called the Amla Grading and Marking Rules, 2008.
  - (2) They shall apply to Amla dried and Amla powder,
  - (3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. **Definitions:** - In these rules, unless the context other wise requires, -
  - (a) "Agricultural Marketing Adviser" means the agricultural marketing adviser to the Government of India;
  - (b) "authorised packer" means a person or body of persons who has been granted the certificate of authorization to grade and mark Amla dried and Amla powder in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;
  - (c) "certificate of authorisation" means a certificate issued under the provisions of General Grading and Marking Rules, 1988 authorizing a person or a body of persons to grade and mark Amla dried and Amla powder with the grade designation mark;
  - (d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
  - (e) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.
3. **Grade designation mark.**- The grade designation mark shall consist of "AGMARK INSIGNIA" consisting of a design incorporating the certificate of authorization number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the one as set out in Schedule I.
4. **Grade designation.**- The grade designation to indicate the quality of Amla dried and Amla powder shall be as set out in column 1 of Schedule II and III.
5. **Quality.**- The quality of Amla dried and Amla powder obtained from *Emblica officinalis* of the family *Euphorbiaceae* shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 7 of Schedules II and III.

**6. Method of packing:-**

- (1) Amla dried or powder shall be packed only in sound, clean and dry container made of jute or cloth with suitable inner lining of food grade material, laminated polyethylene or poly propylene or high density polyethylene bags, pouches or any other packaging material duly approved by the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf.
- (2) The container shall be free from any insect infestation or fungus contamination and also free from any undesirable or obnoxious smell.
- (3) Amla dried or powder shall be packed in such a way as to protect the produce properly. The container shall be securely closed and sealed in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf.
- (4) The materials used inside the package must be new, clean and of such a quality as to avoid causing any external or internal damage to the produce.
- (5) The use of materials particularly of paper or stamps bearing trade specifications is permitted provided the printing or labeling has been done with non-toxic ink or glue.
- (6) Each package shall contain Amla dried or powder of one grade designation only. Suitable number or small packets of Amla dried or powder containing graded material of the same lot or batch and grade designation may be packed in a master container such as jute bags, wooden cases, cardboard cartons etc., with details on master containers;
- (7) Amla dried or powder shall be packed in the pack sizes as per instructions of Agricultural Marketing Adviser issued from time to time.

**7. Method of Marking and Labeling:-**

- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each container.
- (2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:-
  - (a) Name of the commodity;
  - (b) variety (optional);
  - (c) grade designation;
  - (d) lot or Batch Number;
  - (e) name and address of the packer;
  - (f) net Weight;
  - (g) storage condition, if any;

- (h) Country of origin;
- (i) date of packing; \*
- (j) BEST BEFORE DATE;
- (k) maximum retail price (inclusive of all taxes); and
- (l) any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser.

(3) The ink used for marking on packages shall be of such quality which may not contaminate the product.

(4) The authorized packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Amla dried and powder may be graded and marked as per buyer's requirements for export provided minimum requirements specified in the relevant Schedule are met under non-specified grade.

9. **Special conditions for grant of certificate of authorization:-**

(1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, every authorized packer shall follow all instructions prescribed by Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(2) The authorized packer shall either set up his own laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of Amla dried and its powder or has access to the State Grading Laboratory or Private Commercial Laboratory approved for the purpose;

(3) The premises for processing, grading and packing shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions. The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The premises shall have adequate storage facilities with pucca floor and ventilation for light and air and free from rodent and insect infestation.

\* The date of packing shall be the date of completion of the analysis of the sample.

## SCHEDULE - I

{See rule - 3}

## DESIGN OF THE AGMARK INSIGNIA



NAME OF THE COMMODITY.....

GRADE.....

## SCHEDULE - II

(See rules 4 and 5)

## Grade designation and quality of Amla dried

1. Amla dried shall be obtained from *Embolica officinalis* of family *Euphorbiaceae*.

## 2. MINIMUM REQUIREMENTS:-

- (i) Amla dried shall have the colour and characteristic of the commodity.
- (ii) It shall be,
  - (a) sound and clean;
  - (b) free from any visible foreign matter;
  - (c) free from insect infestation, live insect, dead insects, insect fragments, larvae, rodent hair and excreta;
  - (d) free from fermentation, rancid taste and musty odours;
  - (e) free from extraneous matter, added colouring matter and other harmful matter;
  - (f) free from any fungal or bacterial contamination.
- (iii) The taste and smell of Amla dried shall be characteristic of the commodity.
- (iv) It shall comply with restrictions in regard to Metallic contaminants (rule-57), Crop contaminants (rule 57-A), Naturally occurring toxic

substances (rule 57-B), Insecticide and Pesticides (rule 65) and other food safety parameters and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

- (v) Amla dried shall comply with residue levels of Heavy metal, insecticide or pesticide residue and other food safety parameters as laid down by the Codex Alimentarius Commission for exports.

### 3. Criteria for grade designation:

Grade designation	Characteristics					
	Moisture, per cent by mass	Loose seeds, per cent by mass on dry basis	Organic extraneous Matter, per cent by mass on dry basis	Inorganic extraneous Matter, per cent by mass on dry basis	Damaged and insect bored, per cent by mass on dry basis	Vitamin C(ascorbic acid) content, mg./100gm on dry basis
	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Minimum
1	2	3	4	5	6	7.
Special	10.0	2.0	0.5	0.5	1.0	150
Standard	11.0	4.0	1.0	0.5	2.0	100
General	12.0	6.0	2.0	1.0	3.0	80

### 4. OTHER REQUIREMENTS:

The condition of the Amla dried shall be such as to enable them, -

- (1) to withstand transport and handling and
- (2) to arrive in satisfactory condition at the place of destination. .

### Explanation:

1. Organic extraneous matter means vegetable matters of the plants other than Amla fruit.
2. Inorganic extraneous matter means sand, stones, dirt, pebbles, lumps of earth, clay, mud, etc.
3. Damage and insect bored fruit means fruit having visible fungus infestation and damaged by weevils and having bores.

## SCHEDULE – III

(See rules 4 and 5)

Minimum quality and quality of Amla Powder

1. Amla powder is obtained by grinding clean, mature and dried fruit of *Emblica officinalis* of family *Eupherbiaceae*
2. **MINIMUM REQUIREMENTS:-**
  - (i) Amla Powder shall be, -
    - (a) free of any visible foreign matter;
    - (b) free from insect infestations, live insect, dead insects, insect fragments, mould, mites, larvae, rodent hair and excreta;
    - (c) free from fermented and musty odours;
    - (d) free from dirt, extraneous matter like added colouring matter and other type of adulterants;
    - (e) free from any fungal or bacterial contamination.
  - (ii) The taste and smell of Amla powder shall be characteristic of the commodity.
  - (iii) It shall comply with restrictions in regard to Metallic contaminants (rule-57), crop contaminants (rule 57A) naturally occurring toxic substances (rule 57-B), Insecticide and Pesticides (rule 65) and other food safety parameters and other provisions prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.
  - (iv) It shall also comply with residue levels of Heavy Metals, insecticides residue and other food safety parameters as laid down by the Codex Alimentarius Commission for export.

## 3. Criteria for grade designation:

Grade designation	Special Characteristics					
	Moisture, per cent by mass	Total ash, per cent by mass on dry basis	Acid insoluble ash, per cent by mass on dry basis	Crude fibre, per cent by mass on dry basis	Retention on 500 micron sieve, per cent by mass	Vitamin C (ascorbic acid) Content, mg./100 gm. On dry basis.
	(Maximum)	(Maximum)	(Maximum)	(Maximum)	(Maximum)	(Minimum)
1	2	3	4	5	6	7
Special	8.0	5.0	0.5	10.0	1.0	200
Standard	9.0	6.0	1.0	14.0	2.0	150
General	10.0	7.0	1.5	18.0	3.0	100

## 4. OTHER REQUIREMENTS:

The condition of the Amla powder shall be as to enable it,-

- (1) to withstand transport and handling and
- (2) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

## Explanation:

- (i) Organic extraneous matter means vegetable matters of the plants.
- (ii) Inorganic extraneous matter means sand, stones, dirt, pebbles, lumps of earth, clay, mud, etc.

[F. No. 18011/24/2007-M-III]

JIJI THOMSON, Jt. Secy. (Marketing)